

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय

INVERTIS
UNIVERSITY BAREILLY

बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

पल्लवी शर्मा

को एतद्द्वारा

बायोटेक्नोलॉजी विषय में विद्या वाचस्पति

की उपाधि प्रदान करता है।

विद्या-परिषद् की अनुशंसा पर यह उपाधि,

अवाप्ति हेतु विनियमों में विहित अपेक्षाओं को पूर्ण कर लेने पर

तथा दिसंबर 2021 में अपने शोध-प्रबंध

“एटिबिओग्राम एनालिसिस ऑफ़ बायोएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम क्लोरिफिटम बोरीविलिअनुम”

के सफल पक्षपोषण के उपरांत

आज 20 नवम्बर 2021 को दी गई है।

INVERTIS UNIVERSITY

BAREILLY UTTAR PRADESH, INDIA

*Upon the recommendation of the Academic Council,
the University hereby confers the degree of
Doctor of Philosophy in Biotechnology*

Upon

Pallavi Sharma

*who has fulfilled the requirements for the degree as prescribed under the regulations
and successfully defended in Dec 21, the thesis entitled:*

“Antibiogram analysis of bioactive compound from *Chlorophytum borivilianum*”

Given this day, on November 20, 2021.



[Signature]
Registrar
Invertis University
Bareilly

[Signature]
कुलपति
VICE-CHANCELLOR

[Signature]
कुलसचिव
REGISTRAR

कुलसचिव
REGISTRAR

CERTIFICATE

This is to certify that the research work embodied in the thesis entitled “Antibiogram Analysis of Bioactive Compound from *Chlorophytum borivillianum*” has been carried out by **Pallavi Sharma, Ph.D. (Biotechnology)** under our supervision and guidance. The candidate has fulfilled all the requirements relating to the nature of work and has put in necessary attendance prescribed for the degree of Doctor of Philosophy in Science (Biotechnology) of the Invertis University, Bareilly.

It is further certified that the work embodied in the thesis is original that has not been submitted earlier for the award of any diploma or degree of any other University.


Registrar
Invertis University
Bareilly

(Dr. Nitesh Kumar Poddar)

Supervisor

Department of Biotechnology

Invertis University, Bareilly,

Uttar Pradesh, India



Date: ..28.12.2021

INVERTIS UNIVERSITY, BAREILLY
Final PhD Viva Voce Examination
Recommendation of Committee

Name of the Candidate: Ms. Pallavi Sharma
Subject: BIOTECHNOLOGY
Date of URDC 22.07.2017
Date of Final Viva-voce Examination: 28.12.2021

Student ID: PBH2017001
Roll No: 1640317001
Date of Thesis Submission 22.07.2021

Supervisor :Dr Nitesh Kr Poddar

Co supervisor-Dr Vineeta Singh

Topic: "Antibiogram analysis of bioactive compound from *Chlorophytum borivillianum*"

Report of the Oral Board

Defended Successfully

The Candidate is PASSED / ~~FAILED / TO RE-APPEAR~~

URDC Committee:

1. Prof. YDS Arya Chairman (URDC)
2. Dr. Arvind Kr. Shukla Secretary (URDC)
3. Dr. Pankaj Kumar Rai Joint Secretary (URDC)
4. Dr Ajar Nath Yadav External Expert
5. Prof. Lalit Singh Dean Biotechnology
6. Dr Shashank Upadhyay HOD-Biotechnology
7. Dr. Dinesh Prajapati (Internal Expert)
8. Mr. Santosh Kumar Ex-officio Member

[Signature] 28.12.21

[Signature] 28.12.2021

[Signature]
28/12/21

[Signature]

[Signature]
28/12/21

[Signature]

[Signature]
28/12/21

[Signature] 28.12.21
APPROVED BY VICE CHANCELLOR

[Signature]
Registrar
Invertis University
Bareilly